
COMPLIANCE REPORT

M/S Tripthy Granites

Palakkad District

Kerala

April 2020 - September 2020



COMPLIANCE REPORT

ТО

THE CONDITIONS

OF

ENVIRONMENTAL CLEARANCE ORDER

NO: 826/SEIAA/EC1/2609/2015

Dated: 17-08-2016

BΥ

STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (SEIAA)

FOR

BUILDING STONE QUARRY

(MINOR MINERAL MINING) PROJECT

AT

SURVEY NOS. 274, 275/1A3 THIRUMITTACODE-II, THIRUMITTACODE PANCHAYAT, PATTAMBI TALUK, PALAKKAD DISTRICT, KERALA

BY

M/S TRIPTHY GRANITES

PALAKKAD DISTRICT

KERALA

INDEX

| SI. No. | Particulars | Page No. |
|---------|--|----------|
| 1. | Introduction | 07 |
| 2. | Compliance Report – Specific conditions – Part A | 08 |
| 3. | Compliance Report – General conditions – Part B | 11 |
| 4. | Plates | 33 |
| 5 | Annexure | 38 |

LIST OF TABLE

| SI. No. | Particulars | Page No. |
|---------|--|----------|
| 1 | Environmental Monitoring Cell (EMC) | 12 |
| 2 | Details of the natural vegetation existing along the road side | 13 |
| 3 | Details of the CSR | 14 |
| 4 | The details of statutory approvals | 21 |
| 5 | Details of Newspaper Advertisement | 24 |

LIST OF PLATES

| Plate No. | Particulars | Page No. |
|-----------|----------------------------|----------|
| 1. | Rain water harvesting pond | 34 |
| 2. | Fencing | 34 |
| 3. | Sign board | 35 |
| 4. | Warning Alarm | 35 |
| 5. | Mining Area | 36 |
| 6. | Crusher | 36 |
| 7. | Drainage | 37 |
| 8. | Magazine | 37 |


LIST OF ANNEXURE

| Annexure No. | Particulars | Page No. |
|--------------|---|----------|
| | | |
| 1 | Copy of the "Consent to Operate" from Kerala State Pollution Control Board (Renewal) | 39 |
| 2 | Copy of E C order | 41 |
| 3 | Copy of Explosive License issued by the Ministry of Commerce & Industry – Petroleum & Explosives Safety Organization (PESO) | 42 |
| 4 | Copy of License for quarry operations from Gram Panchayath | 43 |
| 5 | Copy of permit from mining and Geology Dept. | 44 |
| 6 | Copy of certificates of licensed person | 46 |
| 7 | Copy of monitoring report of ambient air | 50 |
| 8 | Copy of monitoring report of sound level. | 51 |
| 9 | Copy of monitoring report of water | 52 |
| 10 | News paper Advertisment | 53 |
| 11 | CSR/CER Details | 54 |

INTRODUCTION

The quarry project of **M/s Tripthy Granites** is situated at Survey Nos. 274, 275/1A3, Thirumittacode-II, Thirumittacode Panchayat, Pattambi Taluk, Palakkad District, Kerala.

The quarry project was accorded with the Environmental Clearance (EC) by State Environmental Impact Assessment Authority on 17-08-2016. As part of general condition No.37 of Environmental Clearance order, half yearly compliance report needs to be submitted by the project proponent. The compliance report of first half to the specific conditions and general conditions of the Environmental Clearance order for the period of **April 2020 – September 2020** is being submitted.



PART - A – SPECIFIC CONDITIONS

| 01 | Over burden should be stored in a planned manner in the | complied | |
|----|--|----------|--|
| | designated place. It must be protective support and no soil be | | |
| | taken outside the lease area. | | |

Compliance:

The overburden materials are stored within the site at designated place. This is being used for plantation, haulage roads and land filling in the mining area. No overburden will let out from the project site.

| 02 | The drainage from the quarry should be channeled through a | Being |
|----|--|----------|
| | settling tank. | complied |

Compliance:

To manage storm water, there are natural drainages in the project site for channelization of storm water. To settle down the sediments at the bottom of the pond the project is constructing settling tank.

| 03 | The approach road to the quarry from the main road is not | Being |
|----|---|----------|
| | maintained at all. This road must be maintained in good | Complied |
| | motoroble condition by the proponent. | |

Compliance:

At present the approach roads are motoroble condition with more than 7 meters of width. The project is maintaining the approach road to the quarry from the main road.

| 04 | Dust suppression mechanism must be in place | complied | |
|----|---|----------|--|
|----|---|----------|--|

Compliance:

The project proponent deployed a vehicle to splashes the haulage road and critical areas in regular intervals to arrest dust emissions from the road while

transportation of materials. To prevent dust emission, sprinklers are installed in the project site. This help to suppress dust during the time summer season.


| 05 | Fencing shall be provided at vulnerable points of the quarry to | Complied |
|----|---|----------|
| | avoid accidents. | |

Compliance:

The project proponent has erected barbed metal wire fencing around the mining area and at the critical area and at vulnerable points of the quarry to avoid accidents. This will help to prevent falling of animals/human being/dumping of garbage etc,

Compliance:

The sign boards are fixed in the project site in proper places to provide necessary warning to the labours and humans. The project is intending to fix sign board where ever it is necessary.



PART – B – GENERAL CONDITIONS

01Rain Water Harvesting capacity should be installed as per the
prevailing provisions of KMBR / KPBR, unless otherwise specified.Complied

Compliance:

To collect rain water from the entire mining area, the project proponent has developed one rain water harvesting pond in the project site. The storm water flow is leading to the pond through drainage. The excess clear water is flowing to the public draining after proper filtration. The rain water is used for irrigation purposes, watering of plants, wetting of roads and for dust suppression system (mainly sprinklers system). The photograph showing the rain water collection pond in the project area is attached in **Plate No. 1**.

| 02 | Environment Monitoring Cell (EMC) as agreed under the affidavit | Complied |
|----|---|----------|
| | filed by the proponent should be formed and made functional. | |

Compliance:

The project proponent has constituted an Environment Monitoring Cell (EMC) with Mr. Benny Pathrose as head of the cell. The meetings of the cell convened periodically and evaluate the activities towards the stipulations of Environmental Clearance order. The details of the monitoring cell are given below:

| SI. No. | Post | | Name |
|---------|-----------------------------|---|----------------|
| 1. | Head of the monitoring cell | : | Benny Pathrose |
| 2. | Member | | . Baby K V |
| 3. | Member | | Basil Varghese |

TABLE 1 - ENVIRONMENTAL MONITORING CELL (EMC)

| 03 | Suitable avenue trees should be planted along either side of the | complied |
|----|---|----------|
| | tarred road and open parking areas, if any, inclusive of approach | |
| | road and internal roads. | |

To enrich vegetation and prevent air pollution, the project proponent has various avenue trees along either side of the roads, parking area and other areas in the project land. There are natural vegetations including trees, shrubs, herbs and climbers also present in the project area. This will help to reduce air and sound pollution.

| SI. No. | Scientific Name | Common Name | Family | Туре |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1. | Artocarpus heterophyllus | Plavu | Moraceae | Tree |
| 2. | Nerium oleander | Arali | Apocynaceae | Small tree |
| 3. | Tectona grandis | Thekku | Verbenaceae | Tree |
| 4. | Chromolaena odorata | Communist-pacha | Compositae | Shrub |
| 5. | Mangifera indica | Mavu | Anacardiaceae | Tree |
| 6. | Ziziphus oenopolia | Thodalli | Rhamnaceae | Climber |
| 7. | Swietenia macrophylla | Mahagany | Meliaceae | Tree |

04Maximum possible solar energy generation and utilization shall beCompliedensured as an essential part of the project.

Compliance:

The installation of solar panel can reduce the consumption from conventional sources therefore the project proponent has installed solar panels to use maximum renewable energy to reduce electrical consumption from KSEB.

| 05 | Sprinklers shall be installed and used in the project site to contain | Complied |
|----|---|----------|
| | dust emissions. | |

Compliance:

To prevent dust emission, sprinklers are installed in the project site. In order to reduce dust emissions from the road while transportation of materials, the project proponent is spraying water on roads during summer season at regular intervals by deploying a vehicle at project site. Sprinklers are also installed in the project site.

| 06 | Eco-restoration including the mine closure plan shall be done at the | Being |
|----|--|----------|
| | own cost of the project proponent. | complied |

As part of eco restoration, the project proponent has started to plant various saplings within the project area. The mine closure plan will be done at own cost of project proponent as agreed in the proposal.

| 07 | At least 10 percent out of the total excavated pit area should be | Noted |
|----|--|-------|
| | retained as water storage areas and the remaining area should be | |
| | reclaimed with stacked dumping and overburden and planted with | |
| | indigenous plant species that are eco-friendly, if no other specific | |
| | condition on reclamation of pit is stipulated in the EC. | |

Compliance:

The project proponent is intending to retain 10 percent of total excavated pit as rain water storage area after closure of the mine. The remaining area will be reclaimed with stacked dumping of overburden and top soil. As part of its eco – restoration plan, the project will plant indigenous plant species that are eco – friendly on the reclaimed area.

| 08 | Corporate Social Responsibility (CSR) agreed upon by the proponent | Complied |
|----|--|----------|
| | should be implemented. | |

Compliance:

The project proponent has carrying out many activities for social integration nd community development. The activities under Corporate Social Responsibility (CSR) activities are executed in the sector of Health, Housing. CSR/CER receipts are attached as **Annexure No. 11.** The details are given below

| Sectors | Activities | Benefeciaries | Amount spent |
|-----------|------------|------------------|--------------|
| | | | in Rs. |
| Education | Donation | TV for Education | 18900 |

Table 3 - Details of performed activities under CSR

| | Donation | TV for Education | 16121 |
|--------|----------|-----------------------------------|-------|
| | | | |
| Social | Donation | Prathyasa Bhavan Charitable Trust | 10000 |
| | | Total | 45021 |

| 09 | The lease area shall be fenced off with barbed wires to a maximum | Complied |
|----|---|----------|
| | height of 4ft around, before starting of mining. All the boundary | |
| | indicators (boards, stores, markings etc) shall be protected at all | |
| | times and shall be conspicuous. | |

As part of demarcation of lease area and to prevent falling of animals/human being/dumping of garbage etc, the project proponent has erected barbed metal wire fencing around the mining area with height of 4 ft before the starting of mining. All the boundary indicators will be protected at all times and shall be conspicuous. The photograph of barbed metal wire fencing is provided in **Plate No.2**. Sign boards are attached as **Plate No. 3**.

| 1 | 0 | Warning alarms indicating the time of blasting (to be done at specific | | | | | | | | | | complied |
|---|---|--|-----|----|----|----------|----|-----|--------------|----|-----------|----------|
| | | timings) | has | to | be | arranged | as | per | stipulations | of | Explosive | |
| | | Department. | | | | | | | | | | |

Compliance:

To give warning to the labours and community people prior to the blasting in quarry, the project has installed warning alarms as per the stipulation of Explosive department in the quarry site. Photograph of warning alarm is attached as **Plate No. 4**.

| 11 | Control | measures | on | noise | and | vibration | prescribed | by | KSPCB | Complied | |
|----|------------------------|----------|----|-------|-----|-----------|------------|----|-------|----------|--|
| | should be implemented. | | | | | | | | | | |

Compliance:

The project proponent has implemented mitigate masseurs. The major noise generating sources from the mining activity is working machineries, drilling, blasting

and plying of vehicles. The following control measures are undertaken to bringing down the noise levels:-

- Proper maintenance of machinery and equipments
- The machineries like breaker and excavator has well sound proof cabin so that the machine operators can work without stress due to the sound.
- Personal protective devices i.e., ear plugs are provided to workers working in high noise areas.
- > The mining activity held in day time only.
- > Noise level at quarry site checked periodically.

Blast vibrations and control measures

- Controlled blasting technique is adopted in this project in order to reduce blast vibrations.
- Ordinary delayed detonators are using for the blasting
- The maximum charge per delay is not more than 10kg to limit the PPV values to 10mm/sec.
- Optimum delay sequence and stem to column ratio is maintaining to minimize the ground vibration intensity.

12Quarrying activities should be limited to day time as per KSPCBcompliedguidelines/specific conditions.

Compliance:

Quarrying activities are limited to day time only as per KSPCB guidelines. The quarry working time is 6.30am to 4.30 pm. This will help to limit the sound pollution.

| 1 | 3 | Blasting should be done in a controlled manner as specified by the | Complied |
|---|---|---|----------|
| | | regulations of explosives department or any other concerned agency. | |

Compliance:

To reduce possible accidents and adverse impact, the blasting is done in controlled manner by using ordinary delayed detonators. All blasting activities are carrying out with the stipulated guidelines of explosive department and other concerned agency. 14 A licensed person should supervise/control the blasting operations. Complied

Compliance:

To monitor the mining activities, the project proponent has appointed experts having certificate of Foreman and Second Class Manager for supervise/control the blasting operations for the extraction of granite building stones. Same is attached as **Annexure No. 6**

| 15 | Access roads to the quarry shall be tarred to contain dust emissions | Being |
|----|--|----------|
| | that may arise during transportation of materials. | Complied |

Compliance:

To contain dust emissions and for the trouble free transportation of materials, the project proponent has maintaining the access road to the quarry site. The project proponent splashes water on the road to arrest the dust production during summer season. The project proponent is regularly maintaining the access road in a good manner. The photograph of road is attached as **Plate No. 2.**

| 1 | 6 | Overburden materials should be managed within the site and used complied | d |
|---|---|--|---|
| | | for reclamation of mine pits as per mine closure plan/ specific | |
| | | conditions. | |

Compliance:

The overburden and topsoil need to extract during the time of mining, these natural resources are being staked in the project site. There is no old quarry in the site for restoration. The overburden materials are stored within the site at designated place. This will be used for plantation, haulage roads and land filling in the mining area. No overburden will let out from the project site.

| 17 | Height of the benches should not exceed 5m, and width should not | Complied |
|----|---|----------|
| | be less than 5m, if there is no mention is the mining plan/specific | |
| | conditions. | |

The quarrying activity in the project site is progressing by creating benches of 5m width and 5m height. The mining is done under the direction and supervision of competent person. **Plate No.5** showing the work progressing in the quarry area.

18 Mats to reduce fly rock blast to a maximum of 10 PPV should be provided.
 Noted

Compliance:

The project proponent is using blasting mat to reduce fly rocks during blasting. The project is using ordinary delayed detonator for blasting therefore there is no issue with fly rock in the community and the project is also assure the maximum PPV is under 10.

| ľ | 19 | Maximum depth of mining from general ground level at site shall not | Will be | • |
|---|----|---|----------|---|
| | | exceed 10m. | complied | |

Compliance:

The project proponent will follow the approved mining plan for the exploration of building stone. Therefore mining depth will not exceed beyond 10 meter or not below the level of the nearest stream bed, whichever is less.

| 20 | No mining | g operations should be carried out at places having a slope | Noted | |
|----|-----------|---|-------|--|
| | greater | than 45 ⁰ . | | |

Compliance:

No mining operation is carried out with a slope greater than 45° .

| 21 | Acoustic | enclosures | should | be | provided | to | reduce | sound | Being | |
|----|---|------------|--------|----|----------|----|--------|-------|-------|--|
| | amplifications in addition to the provisions of green belt and hollow | | | | | | | | | |
| | brick envelop for crushers so that the noise level is kept within | | | | | | | | | |
| | prescribed standards given by CPCB/KSPCB. | | | | | | | | | |

To reduce sound amplification, the machines of crusher unit is housed with solid bricks. A green belt is also developed around the unit to reduce noise and air pollution. This helps the noise and sound level is kept within the prescribed standards. The labours in the unit are wearing ear plugs to reduce the impact of noise generating from the machines. The project proponent is maintained all machineries in a good manner. Photograph of Crusher is attached as **Plate No. 6**

| 22 | The | workers | on | the | site | should | be | provided | with | the | required | Complied |
|----|---|---------|----|-----|------|--------|----|----------|------|-----|----------|----------|
| | protective equipments such as ear muffs, helmet, etc. | | | | | | | | | | | |

Compliance:

To ensure the safety of workers in working site the project proponent has provided adequate Personnel Protective Equipments (PPE) such as helmets, ear plugs, safety belts, glows, etc.

| ſ | 23 | Garland drains with clarifiers to be provided in the lower slopes | Being |
|---|----|---|----------|
| | | around the core area to channelize storm water. | Complied |

Compliance:

The project proponent has constructed de siltation traps at project site for clarification of storm water and ensures that all storm water from the mining area is flowing in to the pond created at mining area. The project proponent has initiated steps to create garland drains where it is necessary in the lower slopes of the project area for storm water management. At present the pond is working as a clarifier. The Photograph of the drain is attached as **Plate No.7**.

| 24 | The transportation of minerals should be done in covered trucks to | complied | 1 |
|----|--|----------|---|
| | contain dust emissions. | | |

Compliance:

The project proponent assure that the trucks are covered to avoid dust emission from the vehicle while transportation of materials.

| ſ | 25 | The proponent should plant trees at least 5 times of the loss that has | Being |
|---|----|--|----------|
| | | occurred while clearing the land for the project. | complied |

The project proponent has been planting various saplings in the project area as a compensation of loss of trees while the project is clearing the land for mining.

| 26 | Disposal of spent oil from diesel engines should be as specified | complied | |
|----|--|----------|--|
| | under relevant Rules/Regulations. | | |

Compliance:

The spent oil sold only to the approved recyclers, some time it is using as lubricant in the project site.

| 2 | 27 | Explosives should be stored in magazines in isolated place specified | complied | |
|---|----|--|----------|--|
| | | and approved by the explosives department. | | |

Compliance:

As part of safety, Explosives are stored in magazine. The magazine situated in an isolated place specified and approved by the explosives department. The area surrounded to the magazine was fenced with barbed metal wire. The photograph of the magazine is provided as **Plate No.8**.

| 28 | A minimum buffer distance of 100m meter from the boundary of the | complied |
|----|--|----------|
| | quarry to the nearest dwelling unit or other structures, not being any | |
| | facility for mining shall be provided. | |

Compliance:

To reduce the adverse impact on community life, the norms of Kerala State Pollution Control Board regarding the distance criteria of residences, roads, rivers and worship places is adhered by the project proponent. The distance of the nearest house was 143 meter form the quarry, the KSPCB condition is 50 meter. **29** 100 m buffer distance should be maintained from forest boundaries. **Complied**

Compliance:

There is no forest in the 100 meter vicinity to the project site.

| 30 | Consent from Kerala Pollution Control Board under Water and Air | Complied |
|----|---|----------|
| | Act(s) should have been obtained before initiating activity. | |

Compliance:

The Project proponent obtained "*Consent to Operate*" (Renewal) from Kerala State Pollution Control Board. The copy of consent is provided in **Annexure 1**.

| 31 | All other statutory clearances should have been obtained, as Complied |
|----|---|
| | applicable, by project proponents from the respective competent |
| | authorities including that for blasting and storage of explosives. |

Compliance:

The certificates obtained from concerned statutory authorities are enclosed in Annexure No.1, 2, 3, 4 & 5

TABLE NO.4 – DETAILS OF APPROVALS OBTAINED

| Name of the | Name of the Statutory | Approval Number & Date |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Statutory approval | authority | |
| Environmental | State Environmental Impact | 826/SEIAA/EC1/2609/2015 |
| Clearance order | Assessment Authority, Kerala | Dt.17-08-2016 |
| "Consent to | Kerala State Pollution Control | PCB/PLKD/IC/R16PAL3750504/2019 |
| Operate" (Renewal) | Board | Dt. 26-06-2019 |
| Explosive License | Ministry of Commerce & | E/SC/KL/22/1745(E81598) |
| | Industry – Petroleum & | |
| | Explosives Safety | |
| | Organization (PESO) | |
| License for quarry | PAnchayath | 210/2019-2020/A-7/776/19 |

| operations | | Dt. 04-04-2019 |
|------------|--------------------------|----------------|
| Lease deed | Mining and Geology Dept. | Dt. 29-05-2017 |

| 32 | In the case of any change(s) in the scope of the project, extent | |
|----|--|--|
| | quantity, process of mining technology involved or in any way | |
| | affecting the environemental parameters/impacts as assessed, based | |
| | on which only the EC is issued, the project would require a fresh | |
| | appraisal by this Authority, for which the proponent shall apply and | |
| | get the approval of this Authority. | |

At present there is no change in the scope of the project. The project is running as per plan submitted in Environmental Impact Assessment Authority, Kerala. The project proponent will seek for a new Environmental clearance In the case of any change(s) in the scope of the project.

| 33 | The Authority reserves the right to add additional safe guard | Noted |
|----|--|-------|
| | measures subsequently, if found necessary, and to take action | |
| | including revoking of the environment clearance under the provisions | |
| | of the Environmental (Protection) Act 1986, to ensure effective | |
| | implementation of the suggested safeguard measures in a time | |
| | bound and satisfactory manner. | |

Compliance:

The project proponent is willing to add additional safe guard measures subsequently if the authority found necessary.

| 34 | The stipulations by Statutory Authorities under different Acts and Noted |
|----|--|
| | Notifications should be complied with, including the provisions of Wate |
| | (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and |
| | Control of Pollution) Act 1981, The Environment (Protection) Act, 1986 |
| | the public liability (Insurance) Act, 1991 and EIA notification, 2006. |

The stipulated orders and directions under different act and notification including EIA notification will be scrupulously followed. A brief list of various Acts and notifications which are followed by the proponent is given below

- > Kerala Minor Mineral Concession Rules, 2015.
- ➤ Mines Act, 1952
- > Explosive Rules, 2008
- > Kerala Panchayat Raj Act, 1994
- > Water Pollution (Prevention & Control) Act, 1974
- > Air Pollution (Prevention & Control) Act, 1981
- > The Kerala Promotion of Tree Growth in Non-Forest Areas (Amendment) Act, 2007.
- > Environment Protection Act, 1986
- > EIA Notification, 2006 / 2009

35 The project proponent should advertise in at least two local news papers widely circulated in the region, one which (both advertisement and the newspaper) shall be in the vernacular language informing that the project has been accorded Environmental Clearance and copies of clearance letters are available with the Department of Environment and Climate Change, Govt. of Kerala and may also be seen on the website of the Authority at www.seiaakerala.org. The advertisement should be made within 10 days from the date of receipt of the Clearance letter and the copy of the same signed in all pages should be forwarded to the office of this authority as confirmation.

Compliance:

As per the condition stipulated in environmental clearance order, an advertisement in two local newspapers regarding Environmental Clearance accorded to the quarry project was given within the stipulated period and the copy of the same was submitted at SEIAA Kerala. The copy of the advertisement given in two local newspapers is provided at **Annexure No.10.** The details of the news papers are given in the table.

| SI. No. | News paper | Language | Date of edition |
|---------|------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Kerala Kaumadhy | Malayalam | 31-08-2016 |
| 2 | The new Indian express | English | 31-08-2016 |

. Table No.5- Details of advertisement in news papers

| | A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to | Complied |
|----|--|----------|
| 36 | concerned Grama/District Panchayath / Municipality / Corporation / | |
| | Urban Local Body and also to the Local NGO, if any from whom | |
| | suggestions / representations, if any were received while processing | |
| | the proposal. The Environmental Clearance shall also be put on the | |
| | website of the company by the proponent. | |

Compliance:

A copy of the Environment Clearance letter was submitted to the Panchayat Office. The project proponent did not receive any suggestions / representation from anywhere while the processing the proposal therefore did not give the copy of clearance latter to anyone. At present the project does not have a website this will be created soon.

37The proponent shall submit six monthly reports on the status of
compliance of the stipulated EC conditions including results of
monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) and
upload the status of compliance of the stipulated EC conditions
including results of monitored data on their website and shall
update the same periodically. It shall simultaneously be sent to
the respective Regional Office of MoEF, Govt. of India and also
to the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
office.

Compliance:

The project proponent is bound to follow the conditions stipulated in the Environmental Clearance order. The compliance report of first half is being submitted to the Directorate of Environment and Climate Change, Govt. of Kerala and also to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India. The monitored data of Air, Water and Noise is attached as **Annexure No. 7, 8 & 9**

| 38 | The details of Environmental Clearance should be prominently | complied |
|----|---|----------|
| | displayed in a metallic board of 3 ft x 3ft with green background and | |
| | yellow letters of Times New Roman font of size of not less than 40. | |
| | Sign board with extent of lease area and boundaries shall be | |
| | depicted at the entrance of the quarry, visible to the public. | |

Compliance:

The details of the Environmental Clearance are displayed in the project site. The project proponent has placed the metallic board as specified in the conditions of Environmental Clearance order. The extent of lease area boundary will depict soon.

| 39 | The proponent should provide notarized affidavit (indicating the | Complied |
|----|---|----------|
| | number and date of Environmental Clearance proceedings) that all | |
| | the conditions stipulated in the EC shall be scrupulously followed. | |

Compliance:

An assurance in the form of affidavit was already submitted to SEIAA Kerala. The project proponent is scrupulously following the conditions mentioned in the EC order.

| 40 | No change in mining technology and scope of working should be | Noted |
|----|---|-------|
| | made without prior approval of the SEIAA, No further expansion or | |
| | modification in the mine shall be carried out without prior approval of | |
| | the SEIAA, as applicable. | |

Compliance:

The project proponent is not intending to expand the area of mine, technology and scope of working. The project proponent will appear SEIAA for Environment Clearance if the project wants to expand its scope.

| 41 | The project proponent shall ensure that no natural water course | Noted |
|----|---|-------|
| | and/or water resources shall be obstructed due to any mining | |
| | operations. Necessary safeguard measures to protect the first order | |
| | streams, if any originating from the mine lease shall be taken. | |

The Rain water harvesting pond in the site is working as clarifiers to prevent the quarry waste within the site. The project proponent will install additional clarifiers in the project site to prevent sediments and wastes from quarry site to enter in to the main stream. The project proponent will constitute a Cell to monitor such commitments to the community.

42 Monitoring of Ambient air Quality to be carried out based on the notification 2009, as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. Water sprinkling should be increased at places loading and un loading points & transfer point to reduce fugitive emissions.

Compliance:

The project proponent has monitored the ambient air quality as per National Ambient Air Quality Standard (NAAQS), during the time of appraisal of the project. The project proponent is intending to increase splashing of water and installation of sprinklers at loading, unloading and transfer points.

The top soil, if any, shall be temporarily stored at earmarked site(s) only for the topsoil shall be used for land reclamation and plantation. The Over Burden (OB) generated during the mining operations shall be staked at earmarked dump site(s) only. The maximum height of the dumps shall not exceed 8m and width 20m and overall slope of the dumps shall be maintained to 45⁰. The OB dumps should be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off. In critical areas, use of geo textiles shall be

undertaken for stabilization of the bump. The entire excavated area shall be backfilled. Monitoring and management of rehabilitated areas should continue until the vegetation becomes self-sustaining.

Compliance:

To prevent the soil erosion, the top soil and overburden are stacked in designated place within the project site. Only topsoil will be used for plantation. Overburden will be used for landfill and to construct haulage roads in the mining area. The excess will be stored in a designated place as per the direction of State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The Environment Monitoring Cell will monitor the execution of eco restoration.

44 Catch drains and siltation ponds of appropriate size shall be **complied** constructed around the mine working, mineral and OB dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the river and other water bodies. The water so collected should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development etc., The drains shall be regularly de silted particularly after monsoon and maintained properly.

Compliance:

The project proponent has constructed effective garland drains to catch all the storm water during the time of monsoon season. These channels directed the water to the rain water collection pond. All sediments and silts are settling at the bottom of the pond and only cleared water is letting out. The water from the pond can be used for splashing of water on roads to arrest the dust.

45 Effective safeguard measures such as regular water sprinkling shall be carries out in critical areas prone to air pollution and having high levels of PM₁₀ and PM_{2.5}, such as haul road, loading an un loading points and transfer points – it shall be ensured that the Ambient Air Quality Parameters confirm to the norm prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.

The project proponent is regularly checking the air quality in the site and spraying water in critical areas prone to air pollution with the help of vehicle. The project proponent has placed mobile sprinklers in critical area to reduce the dust emission. The ambient air quality is monitored with the help of an approved laboratory at regular interval.

46 Fugitive dust emission from all the sources should be controlled **complied** regularly. Water spraying arrangements on haul roads, loading and unloading and at transfer point should be provided and properly maintained.

Compliance:

The project proponent has installed mobile sprinklers in critical area to reduce the dust emission. The water spraying has been carried out regularly to arrest the dust emission. The sprinklers and vehicle for water spraying is being properly marinated.

| 47 | Measures should be taken for control of noise levels below 85 dBA in | Noted | |
|----|--|-------|--|
| | the work environment. | | |

Compliance:

The main sound generating activities in the mining industries are the playing of jack hammer, breaker, vehicles and blasting operations. The level noise from all these activities will not go beyond 85dBA. The project proponent will take appropriate action to reduce the sound by employing possible measures. These are mentioned under the condition number 11.

| 4 | 8 | A separate Environmental Management Cell with suitable qualified | Complied |
|---|---|--|----------|
| | | personal should be set up under the control of a senior executive, | |
| | | who will report directly to the Head of the Organization. | |

To monitor all conditions stipulated in the Environment Clearance and environment Management Plan, the project has constituted an Environment Monitoring Cell with Mr. Benny Pathrose as the head of the Cell. This cell concurrently monitors and evaluates the safeguard measures implemented in the project site.

49The funds earmarked for environmental protection and CSR activitiesBeingshould be kept in separate account and should not be diverted for
other purpose. Year wise expenditure should be reported to the StatecompliedEnvironment Impact assessment authority (SEIAA) office.Environment Impact assessment authority (SEIAA)Find

Compliance:

The project proponent could execute many activities under Corporate Social Responsibility (CSR) for community development. To implement these activities in a good manner, the project proponent maintain an account for keeping the funds earmarked for environmental protection and CSR.

| 50 | The Regional Office of MoEF & CC located at Bangalore shall | Will be |
|----|---|----------|
| | monitor compliance of the stipulated conditions. The project | complied |
| | authorities should extend full cooperation to the officer(s) of the | |
| | regional Office by furnishing the requisite data/information/monitoring | |
| | reports. | |

Compliance:

The project proponent will extent all possible cooperation to the officers form regional office of MoEF & CC and can produce all data/information/reports when they are asking for.

| 51 | Any appeal against this environmental clearance shall lie with the | Noted |
|----|---|-------|
| | National Green Tribunal, if preferred within a period of 30 days as | |
| | prescribed under section 16 of the National Green tribunal Act, 2010. | |

| 52 | Concealing the factual data or submission of false/ fabricated data | Noted |
|----|--|-------|
| | and failure to comply with any of the conditions mentioned above may | |
| | result in withdrawal of this clearance and attract action under the | |
| | provisions of Environment (Protection) Act, 1986. | |

| 53 | The SEIAA may revoke or suspend the order, for non implementation | Noted |
|----|---|-------|
| | of any of the specific or this implementation of any of any of the | |
| | above conditions is not satisfactory. The SEIAA reserves the right to | |
| | alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in | |
| | the interest of environment protection. | |

The project proponent is willing to implement the conditions stipulated in the Environment Clearance order. The project proponent can execute all possible measures in the project site for the conservation of environment.

| ſ | 54 | The above conditions shall prevail not withstanding anything to the | Noted |
|---|----|--|-------|
| | | contrary, in consistent, or simplified, contained in any other permit, | |
| | | license on consent given by any other authority for the same project. | |

Compliance:

The project proponent is giving priority to the conditions stipulated in the Environment clearance Order for its execution.

| 55 | This order is valid for a period of 5 years or the expiry date of mine | Noted | |
|----|--|-------|--|
| | lease period issued by the Govt. of Kerala, whichever is earlier. | | |

| 56 | The environmental clearance will be subject to the final order of the | Noted |
|----|---|-------|
| | courts in any pending litigation related to the land or project, in any | |
| | court of law. | |

| Ī | 57 | The mining operation shall be restricted to above ground water table | Will | be |
|---|----|--|--------|----|
| | | and is should not intersect ground water table. | compli | ed |

The project proponent will restrict its mining operations above the ground water table.

| 58 | All vehicle used for transportation and within the mine shall have | complied |
|----|---|----------|
| | "PUC" certificate from authorized pollution taking center. Washing of | |
| | all vehicles shall be inside the lease area. | |

Compliance:

As part of reduce air pollution, the project proponent is monitoring the pollution level of all vehicles playing in the project site. This monitoring conducts in authorized pollution checking center.

| 5 | 59 | Project proponent should obtain necessary prior permission of the | Noted |
|---|----|--|-------|
| | | competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water | |
| | | and ground water for the project. | |

Compliance:

At present, the need of prior approval is not necessary to draw ground water and surface water for the project.

| 60 | Regular monitoring of flow rates and water quality upstream and | Noted |
|----|---|-------|
| | down streams of the springs and perennial nallahs flowing in and | |
| | around the mine lease area shall be carried out and reported in the | |
| | six monthly report to SEIAA. | |

Compliance:

There is no stream or springs flowing in and around to the mine lease area. The project proponent will install de siltation trap and other mechanism to prevent sediments and wastes from the mining area entering in to the public drainage system.

| 61 | Occupational health surveillance program of the workers should be | Noted |
|----|--|-------|
| | under taken periodically to observe any contractions due to exposure | |
| | to dust and take corrective measures, if needed. | |

The project proponent has initiated steps an occupational health surveillance program in association with Primary Health Center (PHC) of Kerala government for the labours working in mining area.

PLATES

Plate No.1



RWH Pond

Plate No.2



Fencing

Plate No.3



Sign boards

Plate No.4



Warning Alarm

Plate No.5



Mining area

Plate No.6



Crusher

Plate No.7



Drainage

Plate No.8




Magazine

ANNEXURE

| | KER | ALA STATE POLLU | TION CONTROL | L BOARD | |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|
| | D. :PCB/PLKD/ICO/R ssue :26/09/2019 | 16PAL3750504/2019 | | | |
| | INTEG | RATED CONSENT | FO OPERATE - 1 | RENEWAL | |
| Consent | No : PCB/PLKD/ICO/F | R1/11272680/2019 | | | |
| The ' Inte ,CHALIY is hereby ,CHALIY | grated Consent to Operat ATTIRI P.O PALLIPPA renewed up to 30/09/202 ATTIRI P.O PALLIPPA | CO/F/4417/2016 dated 1 te' issued as per reference ADAM PALAKKAD DIS 24 and issued to M/s TRII ADAM PALAKKAD DIS | above to M/s TRIP STRICT - 679535 PTHY GRANITES | | |
| | ditions stipulated therein | cited under reference are a and the following modif | | renewal order and th | his order is subject |
| to the cor | ditions stipulated therein | | | renewal order and the determinant of the determinan | nis order is subject |
| to the con | ditions stipulated therein | and the following modif | | | nis order is subject |
| to the con I. GENE S.No. | ditions stipulated therein | and the following modif | ications/ additions. | | nis order is subject |
| to the cor I. GENE S.No. | ditions stipulated therein CRAL Annual Fee | and the following modif | Rs.22000/- | Description | nis order is subject |
| to the corr I. GENE S.No. 1 2 | ditions stipulated therein CRAL Annual Fee Category | and the following modif | Rs.22000/- Red Rs.94.7 Lak | Description hs hs Survey No 274,2 ode II village with | 75/1A3 in |
| to the con I. GENE S.No. 1 2 3 | ditions stipulated therein ERAL Annual Fee Category Capital Investment | and the following modif | Rs.22000/- Red Rs.94.7 Lak Quarrying ir Thirumittace | Description hs hs Survey No 274,2 ode II village with | 75/1A3 in |
| to the con I. GENE S.No. 1 2 3 4 | ditions stipulated therein RAL Annual Fee Category Capital Investment Activity | and the following modif | Rs.22000/- Red Rs.94.7 Lak Quarrying ir Thirumittace 4.7811 hecta | Description hs n Survey No 274,2 ode II village with tres | 75/1A3 in |
| to the con I. GENE S.No. 1 2 3 4 5 | ditions stipulated therein RAL Annual Fee Category Capital Investment Activity Validity | and the following modif | Rs.22000/- Red Rs.94.7 Lak Quarrying ir Thirumittacc 4.7811 hecta 16.08.2021 On or before Rs.123417/- | Description hs n Survey No 274,2 ode II village with tres | 75/1A3 in area of extent |
| to the con I. GENE S.No. 1 2 3 4 5 6 | ditions stipulated therein RAL Annual Fee Category Capital Investment Activity Validity Renewal Date Fee Remitted | and the following modif | Rs.22000/- Red Rs.94.7 Lak Quarrying ir Thirumittacc 4.7811 hecta 16.08.2021 On or before Rs.123417/- | Description hs n Survey No 274,2 ode II village with tres e 16.06.2021 (fee remitted is add | 75/1A3 in area of extent |
| to the con I. GENE S.No. 1 2 3 4 5 6 7 II. Stack | ditions stipulated therein RAL Annual Fee Category Capital Investment Activity Validity Renewal Date Fee Remitted | and the following modif Items f Emission | Rs.22000/- Red Rs.94.7 Lak Quarrying ir Thirumittacc 4.7811 hecta 16.08.2021 On or before Rs.123417/- | Description hs n Survey No 274,2 ode II village with ures e 16.06.2021 (fee remitted is add o 30-9-2024) | 75/1A3 in area of extent |

| All other conditions of the Integrate | ed Consent to Operate issued as per reference above remain unchanged. |
|---|--|
| | KRISHNAN M N Date: 2019.09.26 15:59:50 +05'30' |
| DATE :26/09/2019 | SIGNATURE & SEAL OF ISSUING AUTHORITY ENVIRONMENTAL ENGINEER |
| | AND THE REAL POLICIES HIT OF THE REAL POLICIES |
| То | |
| | PILLIL HOUSE MALAYIDOMTHURUTHU P.O ERNAKULAM - |
| 683561 | PILLIL HOUSE MALAYIDOMTHURUTHU P.O ERNAKULAM - is legally valid as per the Information Technology Act 2000 |
| 6835611. This digitally signed document2. For verifying this document plea | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |
| 6835611. This digitally signed document2. For verifying this document plea unit/Application Number in "Conset | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |
| 6835611. This digitally signed document2. For verifying this document plea unit/Application Number in "Conset | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |
| 683561 1. This digitally signed document 2. For verifying this document plea unit/Application Number in "Conse | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |
| 683561 1. This digitally signed document 2. For verifying this document plea unit/Application Number in "Conse | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |
| 683561 1. This digitally signed document 2. For verifying this document plea unit/Application Number in "Conse | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |
| 683561 1. This digitally signed document 2. For verifying this document plea unit/Application Number in "Conse | is legally valid as per the Information Technology Act 2000 se go to krocmms.nic.in and search using date of issue/name of the ent Granted Applications" link in the home page of the Board's Online Consent |

Copy of Consent form PCB




Copy of Environmental Clearance

| | | प्ते प्ररुप एल. ई3 LICEN 2008 की अनुसुची 4 के भाग 1 | | |
|---|---|---|--|---|
| | (See article 3(a | a) to (d) of Part 1 of Schedule IV | of Explosives Rules, 2008) | |
| (ग) उपयोग | के लिए एक समय पर वर्ग 1,2,3,4 Licence to posses | ,5 या वर्ग 7 के विस्फोटक या वि s : (c) for use, explosives of clas | hसी मैगजीन में वर्ग 6 के विर s 1 2 3 4 5 6 or 7 in a magazi | स्फोटक रखने के हि |
| अनुज़प्ति सं. (Licence No.) : E/SC/K | (L/22/1745(E81598) | | , and the second s | |
| वार्षिक फीस रुपए (Annual Fee Rs): 2 | 2400/- | | 1 | SUT OF INDIA. |
| 1. Licence is hereby granted to | 43 | | * | |
| Sh.Benny Pathrose, Partner (31 | धेभोगी / Occupier : Sh.Benny Patl | hrose). M/s. Thrinthy Granites | Pallinadam Malayamkumat | h Chathiyahiyi Pr |
| Peringode Via, Town/Village - Ch | naliyattiri, District-PALAKKAD, S | tate-Kerala, Pincode - 679535 | E | |
| को अन्जप्ति अन्दत्त की जाती है | | | 13 | PER CHENNALS |
| 2. अन्जप्तिधारी की प्रास्थिति Statu | | | | MALISIVES 2 |
| अनुजण्ति निम्नलिखित प्रयोजनों वे Licence is valid only for the follow | | possess for use उपयोग के लिए | | Fuse, Ordinary Detonator, Electric Detonators, - |
| 4. अनुज्ञप्ति विरूफोटकों के निम्नलिति | | | | |
| | kinds and quantity of explosives: । | (क) (a) वर्ग और प्रभाग | | ************************************** |
| | Name and Description | Class & Division | उप-प्रभाग Sub-division | मात्रा किसी एक समय में Quantity at any one time |
| <u></u> <u>2.</u> | Nitrate Mixture Safety Fuse | 2,0 6,1 | 0 | 400 Kg. 1000 Mtrs |
| <u> </u> | Ordinary Detonator Electric Detonators | 6,3 6,3 | 0 | 5000 Nos. 5000 Nos. |
| (ख) किसी एक कलैंडर मास में खरीदे | जाने वाले विस्फोटक की मात्रा (अन्च्छे | प्रेद 3(ख) और (ग) के अधीन अनज्ञ | प्ति के लिए। | . 10 times |
| (b) Quantity of explosives to be purch | ased in a calendar month[applicable fo | r licence under article 3(b) and (c) | 1: | as above. |
| निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) र The licensed premises shall confort | | 61 | . रेखाचित्र क्र. (Drawing No. दिनांक (Dated) 25/07/201 | .) E/SC/KL/22/1745(E81598) 17 |
| अन्जप्ति परिसर निम्नलिखित पते | पर स्थित हैं। The licensed premi | ses are situated at following add | | |
| जिला (District) | age) : Thirumittacode-2 (v), Patta PALAKKAD | राज्य (State) | Kerala पिनव | पुलिस याना (Police Station) : Chalisser होड (Pincode) 679535 |
| दूरभाष (Phone) | -0 | ई. मेल (E-Mail) | | f (Fax) |
| 7. अनुजप्ति परिसर में निम्नलिखित The licensed premises consist of fo | | . Two portable r | nagazines of B(No.11) & B(1 | |
| अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद The licence is granted subject to th conditions and the following Anne: 1. उपर्यक्त क्रम सं. 5 में यथ | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। e provision of Explosives Act 1884 xures. या कथित रेखाचित्र (स्थान सन्तिमी) | (P) Ltd., Nago 4 और उनके अधीन विरचित कि as amended from time to time t ज संबंधी और अन्य विवरण दी | ar. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध and the Explosives Rules, 200 | No.12) type fabricated by M/s. Industrial Explosives ਸੀ, शर्तों और अंतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional |
| अनुनप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद The licence is grained subject to Ih conditions and the following Anne: उपर्युक्त क्रम सं: 5 में यथ Drawings (showing site, | ाशीचित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures या कचित रेखाचिव (स्थान, सनिम्मी रा हस्ता हरित इस अनुनारित की 1 al Conditions of this licence signed er form DE-2 र तक विधिमान्य रहेगी। This licen 3 अधीन विरचित नियमों या अनुसूर सरसे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a stated in serial No. 5 above. atf और अतिथिंतर सर्ते। by the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d औ एक भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट ए के अनुरुप नहीं पाए जाने. | ir. फ्लोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव (निर्जीबन या प्रतिसंहत की : | धो, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजय्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या जा सकती है, जहां वह लागू हो। |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is grande subject to în conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में य Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी ददाय Conditions and Addition 3. द्री प्ररूप DE-21 Distant 9. यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति, अधिनियम या उसके यदि अनुजप्त परिसर योजना या उ | ाशीचित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures या कचित रेखाचिव (स्थान, सनिम्मी रा हस्ता हरित इस अनुनारित की 1 al Conditions of this licence signed er form DE-2 र तक विधिमान्य रहेगी। This licen 3 अधीन विरचित नियमों या अनुसूर सरसे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a stated in serial No. 5 above. atf और अतिथिंतर सर्ते। by the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d औ एक भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट ए के अनुरुप नहीं पाए जाने. | ir. फ्लोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव (निर्जीबन या प्रतिसंहत की : | धो, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजय्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या जा सकती है, जहां वह लागू हो। |
| अनुनप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद The licence is grained subject to Ih conditions and the following Anne: उपर्युक्त क्रम सं: 5 में यथ Drawings (showing site, | ाशीचित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures या कचित रेखाचिव (स्थान, सनिम्मी रा हस्ता हरित इस अनुनारित की 1 al Conditions of this licence signed er form DE-2 र तक विधिमान्य रहेगी। This licen 3 अधीन विरचित नियमों या अनुसूर सरसे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a stated in serial No. 5 above. atf और अतिथिंतर सर्ते। by the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d औ एक भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट ए के अनुरुप नहीं पाए जाने. | rr. फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्लबित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A | यो, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional णिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या जा सकती है, जहां वह लागू हो। cence as set forth under Set VIII, wherever applicable, nnexure attached pereto. |
| अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद The licence is granted subject to hi conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथ Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी द्वार Conditions and Addition 3. दुरी प्रषप DE-2 Distant 9. यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति , अधिनियम या उसके यदि अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V | ाशीचित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures या कचित रेखाचिव (स्थान, सनिम्मी रा हस्ता हरित इस अनुनारित की 1 al Conditions of this licence signed er form DE-2 र तक विधिमान्य रहेगी। This licen 3 अधीन विरचित नियमों या अनुसूर सरसे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन निरचित कि as amended from time to time a जा संबंधी और अन्य विवरण दी stated in serial No. 5 above. शर्ते और अतिरिक्ति शरी by the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d औ V के आग 4 के प्रति निर्दिष्ट ग के अनुरूप वहीं पाए जाने प te Act or Rules framed there un ound conforming to the descript | rr. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अपीन तथा उपव (निर्वावेत या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and Ai संयुक्त मुख्य विस्प | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 19 विंत इस अनुजन्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या जा सकती है, जहां वह लागू हो। cence as set forth under Set VIII, wherever applicable, nnexure attached perco. |
| अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद The licence is granted subject to hi conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथ Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी द्वार Conditions and Addition 3. दुरी प्रषप DE-2 Distant 9. यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति , अधिनियम या उसके यदि अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V | ाशीचित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures या कचित रेखाचिव (स्थान, सनिम्मी रा हस्ता हरित इस अनुनारित की 1 al Conditions of this licence signed er form DE-2 र तक विधिमान्य रहेगी। This licen 3 अधीन विरचित नियमों या अनुसूर सरसे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a stated in serial No. 5 above. atf और अतिथिंतर सर्ते। by the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d औ एक भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट ए के अनुरुप नहीं पाए जाने. | गर. एफोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 र्शेत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्जबित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प लेए स्थान | यो, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional णिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या जा सकती है, जहां वह लागू हो। cence as set forth under Set VIII, wherever applicable, nnexure attached pereto. |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबर्थ्या के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is grande subject to în conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यर Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी द्वार Conditions and Addition 3. द्री प्ररूप DE-21 Distant 9. यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति प्राधिक कि subject तारीख The Date - 25/07/2017 नवीकरण की तारीख | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कपित रेखापिव (स्थाप, सनिम्मी) constructional and other details) as (रा हस्ता.क्षरित इस अनुप्राप्त की t al Conditions of this licence signed te form DE-2. २ तक विधिमान्य रहेनीं। This licence : अधीन विरधित नियमों या अनुसू स्परे संलग्न उपबंध में दर्शित विवर ed or revoked for any violation of th or if the licensed premises are not for समाप्ति की तारीख | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a 9 सांबंधी और अन्य विवरण दी 5 stated in serial No. 5 above. 9 स्वी और अतिथित्तर सते। 9 the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d यी V के आग 4 के प्रति निर्दिष्ट 90 के अनुरुष नहीं पाए जाने प te Act or Rules framed there un bund conforming to the descript नदीनीकरण के पुष्ठांकन के 1 | गः. एफोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 र्शेत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्लबित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प रेस्टान रेसाम्य अनुजापन प्राधिकार्र | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 गिंत इस अनुगरित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 9 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 9 जार करी है, जहां कर करी है, कर कर कर कर कर कर 9 जार कर |
| अनुनप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to hi conditions and the following Anne: प्रप्र्युक्त क्रम सं. 5 में यथ Drawings (showing site, 2. अनुनप्ति प्राधिनारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुनप्ति, अधिनियम या उसके यदि अनुनप्ति, अधिनियम या उसके यदि अनुनप्ति परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिममी constructional and other details) as (रा हस्ता.सीरत इस अनुजादत की 1 al Conditions of this licence signed be Form DE-2. 2 तक विधिमान्य रहेगी। This licen 3 अधीन विरचित नियमों या अनुसूर सरसे संलग्ज उपबंध में दर्शित वियर of or revoked for any violation of th or if the licensed premises are not fi | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a 9 सांबंधी और अन्य विवरण दी 5 stated in serial No. 5 above. 9 स्वी और अतिथित्तर सते। 9 the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d यी V के आग 4 के प्रति निर्दिष्ट 90 के अनुरुष नहीं पाए जाने प te Act or Rules framed there un bund conforming to the descript नदीनीकरण के पुष्ठांकन के 1 | गः. एफोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 र्शेत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्लबित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प रेस्टान रेसाम्य अनुजापन प्राधिकार्र | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 पिंत इस अनुज्राप्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या 9 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 9 cence as set forth under Set VIII, wherever applicable, 9 nnexure attached performance of the set |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबर्थ्या के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is grande subject to în conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यर Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी द्वार Conditions and Addition 3. द्री प्ररूप DE-21 Distant 9. यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति प्राधिक कि subject तारीख The Date - 25/07/2017 नवीकरण की तारीख | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कपित रेखापिव (स्थाप, सनिम्मी) constructional and other details) as (रा हस्ता.क्षरित इस अनुप्राप्त की t al Conditions of this licence signed te form DE-2. २ तक विधिमान्य रहेनीं। This licence : अधीन विरधित नियमों या अनुसू स्परे संलग्न उपबंध में दर्शित विवर ed or revoked for any violation of th or if the licensed premises are not for समाप्ति की तारीख | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a 9 सांबंधी और अन्य विवरण दी 5 stated in serial No. 5 above. 9 स्वी और अतिथित्तर सते। 9 the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d यी V के आग 4 के प्रति निर्दिष्ट 90 के अनुरुष नहीं पाए जाने प te Act or Rules framed there un bund conforming to the descript नदीनीकरण के पुष्ठांकन के 1 | गः. एफोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 र्शेत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्लबित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प रेस्टान रेसाम्य अनुजापन प्राधिकार्र | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 गिंत इस अनुगरित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 9 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 9 जार करी है, जहां कर करी है, कर कर कर कर कर कर 9 जार कर |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबर्थ्या के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is grande subject to în conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यर Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी द्वार Conditions and Addition 3. द्री प्ररूप DE-21 Distant 9. यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति तारीख 31 मार्च 2023 यह अनुजप्ति प्राधिक कि subject तारीख The Date - 25/07/2017 नवीकरण की तारीख | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कपित रेखापिव (स्थाप, सनिम्मी) constructional and other details) as (रा हस्ता.क्षरित इस अनुप्राप्त की t al Conditions of this licence signed te form DE-2. २ तक विधिमान्य रहेनीं। This licence : अधीन विरधित नियमों या अनुसू स्परे संलग्न उपबंध में दर्शित विवर ed or revoked for any violation of th or if the licensed premises are not for समाप्ति की तारीख | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन विरचित वि as amended from time to time a 9 सांबंधी और अन्य विवरण दी 5 stated in serial No. 5 above. 9 स्वी और अतिथित्तर सते। 9 the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d यी V के आग 4 के प्रति निर्दिष्ट 90 के अनुरुष नहीं पाए जाने प te Act or Rules framed there un bund conforming to the descript नदीनीकरण के पुष्ठांकन के 1 | गः. एफोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 र्शेत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्लबित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प रेस्टान रेसाम्य अनुजापन प्राधिकार्र | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 गिंत इस अनुगरित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 9 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 9 जार करी है, जहां कर करी है, कर कर कर कर कर कर 9 जार कर |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबस्दों के अधीन रहते हुए जनदू The licence is granted subject to Ih conditions and the following Anne: 1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथ Drawings (showing site, 2. अनुजप्ति प्राधिकारी दद्या Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distand 9. यह अनुजप्ति: तारीयि 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति: तारीयि 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति: तारीयि 31 मार्च 2022 यह अनुजप्ति: तारीयि 31 मार्च 2027 यह अनुजप्ति: तारीयि 31 मार्च 2027 यह अनुजप्ति: तारीयि 11 मार्ट 2027 वारी अनुजप्त परिसर योजना या 3 निर्धाटन योजना योजना योजना योजना या 3 निर्धाटन योजना य | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। e provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सन्निमी constructional and other details) as (या हस्ता.सीरेत इस अनुमोदित की य al Conditions of this licence signed the form DE-2. 2 तक विधिमान्य रहेगी। This licen : अधीन विरिधन नियमों या अनुसूर स्तरे संतरून उभ्यंय में दर्शित विवस ed or revoked for any violation of th or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for समाप्ति की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp 4 और उनके अधीन निरचित कि as amended from time to time a or संबंधी और अन्य विवरण दी stated in serial No. 5 above. पर्वे और अतिविक्त शर्ते। by the licensing authority. nee shall remain valid till 31st d औ V के भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट or के अनुरूप नहीं पाए जाने प ne Act or Rules framed there un ound conforming to the descript नवीनीकरण के पृष्ठांकन के 1 Space for Endorsement of | गर. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। ay of March 2022. सेट- VII के अधीन तथा उपव र निर्वाचित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प संयुक्त मुख्य विस्प रेशुक्तामर प्राधिकार्र Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 विंत इस अनुजन्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या 9 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 9 cence as set forth under Set VIII, wherever applicable, nnexure attached set VIII, wherev |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | शोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कपित रेखापिव (स्थाप, सनिम्मी) constructional and other details) as (रा हस्ता.क्षरित इस अनुप्राप्त की t al Conditions of this licence signed te form DE-2. २ तक विधिमान्य रहेनीं। This licence : अधीन विरधित नियमों या अनुसू स्परे संलग्न उपबंध में दर्शित विवर ed or revoked for any violation of th or if the licensed premises are not for समाप्ति की तारीख | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) L | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) L | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) L | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) L | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) | गः. स्फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। बेर of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li for shown in the plans and A संयुक्त मुख्य विस्प त्रिप स्थान Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |
| 8. अनुजप्ति समय – समय पर यथासं उपाबध्दों के अधीन रहते हुए अनुद् The licence is granted subject to th conditions and the following site. 1. उपयुंक्त क्रम सं. 5 में यह अनुजाति प्राधिकारी दरार Conditions and Addition 3. दूरी प्ररूप DE-2 Distanc 9. यह अनुजाति, तारीख 31 मार्च 2022 यह अनुजाति, तारीयिनयम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनियम या उसके यदि अनुजप्ति, तारीयिनयम या उसके वादी अनुजप्त परिसर योजना या 3 This licence is liable to be suspend referred to in Part 4 of Schedule V तारीख The Date - 25/07/2017 | रिमित विस्फोटक अधिनियम, 1884 त्त की जाती है। provision of Explosives Act 1884 xures. या कधित रेखाधिव (स्थान, सनिम्मी al Conditions of this licence signed ice Form DE-2. टेक विधिमान्य रहेगी। This licer : अधीन विरचित नियमों या अनुसूर ससे संलग्ज उपबंध में दर्शित विय तं or revoked for any violation of t or if the licensed premises are not for if the licensed premises are not for Attract की तारीख Date of Expiry | (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) Ltd., Nagp (P) | ir. फोटक नियम, 2004 के उपबंध nd the Explosives Rules, 200 रोंत करते हुए)। ay of March 2022. सेट-VII के अधीन तथा उपव र निर्वावित या प्रतिसंहत की : der or the conditions of this li ion shown in the plans and Ai संयुक्त मुख्य विस्प तेष्ट स्थान Renewal अनुजापन प्राधिकर्त Signature of licen | यो, शर्तो और अतिरिक्त शर्तो और निम्नलिखित 8 framed there under and the conditions, additional 9 framed there under and the conditions, additional 9 जिंत इस अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जा सकती है, जहां वह लागू हो। 90 जात्रस्था के व्याप्त का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के प्रति का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अनुजन्दित की शर्तों का अधिक्रमण करने या 90 जात्रस्था के श्रा होगा 90 जात्र का अधिक का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने या 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने वा 90 जात्र का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिक्रमण करने का अधिका का का अधिका का अधिका का अधिका का |

Copy of Explosive

| | | 5 | |
|---|---|--|---|
| നമ്പര്: 6/2020-2021/A-7/503/20 | and the second | തീയ | തി: 24/02/2020 |
| <u>തിരുമ</u> | വിറ്റക്കോട് ഗ്രാ | <u>മപഞ്ചായത്ത്</u> | |
| | ത്തന്നൂർ പി.ഒ., പ | 60 | |
| പിന് : 679535, ഫോണ് : 46 | 62258233, ഇ-മെയി | ല്: ddpthirumittakodepkd | @gmail.com |
| വ്യവസായം, വാണിജ്യം | ം, സംരഭകത്വം, മ | റ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള | ലൈസൻസ് |
| (കെ.പി.ആർ ആക്ട് | സെക്ഷൻ 232, FAC1 | reos ലൈസൻസ് ചട്ടങ്ങ | ưð 1996) |
| ലൈസൻസിയുടെപേര് | ബെന്നി പത്രോസ് | Terrat in | 1 1/2 1 |
| ലൈസൻസിയുടെ മേൽവിലാസം | പാർടണർ , തൃപര | നി ഗ്രാണൈറ്റ്സ്, ചാഴിയാട്ടിരി(| പി.ഒ) |
| സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും, സ്ഥലനാമവും | M/S തൃപതി ഗ്രാടെ | നറ്റ്സ്, ചാഴിയാട്ടിരി(പി.ഒ) | |
| ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ | കരിങ്കൽ ഖനനം , വില്ലേജ് | സർവ്വെ നമ്പർ 274 , 275/1A3, തി | രൂമിറ്റക്കോട് 2 |
| വാർഡ് നമ്പര്/കെട്ടിട നമ്പർ | XI/ | and the second sec | 1243 |
| ലൈസെൻസ് കാലാവധി | 01/04/2020 | മുതൽ 31/03/2025 | വരെ |
| and the second | തുക | രസീത് നമ്പർ | തീയതി |
| ലൈസെൻസ് ഫീസ് | 75000 /- രൂപ | 119010107273 | 24/02/2020 |
| മോട്ടോർ ഫീസ് | and the second | | |
| തൊഴിൽ നികുതി | 2500 /- രൂപ | 119010107274 | 24/02/2020 |
| | 1. 06/04/2017, Proceed | gh court of kerla WP(C) no- 12122 lings of the Director of Minning & | Geology No- |
| ലൈസെൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ഹാജരാക്കിയ നിരാക്ഷേപ പത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (നമ്പര്, തീയതി, കാലയളവ്, നൽകിയ അധികാര സ്ഥാപനം) | 2. Quarrying Lease dat | 2016/GMG dated -20/05/2017 - val ed 29/05/2017 - Valid Up to 28/05/2 ard Consent - PCB/PLKD/ICO/R1, id up to <mark>16/08/2021 /</mark> | 2027, Kerala stae |
| LUNO BELO | up to 31/03/2022, Pr Assessment Authho | o E/SC/KL/22/1745(E81598) dated occeedings of the State Envionme rity kerla NO- 826/SEIAA/EC1/260 proposed About 8 yers | nt Impact |
| Condition (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | തിരുമിറ്റക്കോട്. | സെക്ടറി സെക്ടറി ക്രോട് ഗ്രാമ പ മാമപഞ്ചായത്ത് |

Copy of license from Gram Panchayat




x1.18421> Presented in the price of the Subregistre. Thritheta at the Photoprophyle of the Subregistre. Thritheta at the Photoprophyle of the Photoprophyle of the Createring the photoprophyle of the Createring of the Createring of the Createring of the Subregistre. Claimanifel of the Greatering of the Subregistre. Thritheta at the Subregistre. 63772 Berry Palhrose Make Reveling at medappali) hose Sto mm Palmon and der the son find an Und ame havan he Kuthichivakuelicui Eichose Alle K.K. Kuniakore Bassiness Donoulcal. P.D Basil. Vellamkandalhit Basilfur Sto Vastery. Bussiness Nellimottom. Po 2 concorrectuadent that by I have sadisfied myself as to the critetind the Oarty k. K. Sageeven Golagot Distant office Of the department of mining and golagy Dalakked he is excempted In Rossonel appearence. as Per Said St (1) of Indian Regn Act 1208 VISWAMOHANAN e day of The dois Sub Registrar Registered as No. 1.842 of 2012 in Book T Volume 1658 Forma from 93 to 98 VISWAMOHANAN of Tudob Sub Registrar


Lease deed

Cert No. FUE / 1485 भारत सरकार/Government of India खान अधिनियम, 1952/Mines Act, 1952 खनन परीक्षा बोर्ड/Board of Mining Examinations फोरमैन सक्षमता प्रमाण-पत्र FOREMAN'S CERTIFICATE OF COMPETENCY (धात्विकीय खान विनियम, 1961 के अन्तर्गत) (Under the Metalliferous Mines Regulations, 1961) श्री सोमा रमनजूला रेड्डी सुपुत्र सोमा वेंकट रेड्डी जिनकी जन्म तिथि 08.03.1995 है, को विहित अर्हताएं एवं अनुभव प्राप्त करने का सन्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर एतद्द्वारा फोरमैन सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है । यह प्रमाण-पत्र दिनांक 06.07.2016 से प्रभावी है। Shri Soma Ramanjula Reddy son of Soma Venkata Reddy born on 08 th March, 1995 having given satisfactory evidence of possessing the prescribed qualifications and experience is hereby granted MINE FOREMAN'S CERTIFICATE OF COMPETENCY. This certificate is effective from 06.07.2016 सचिव खनन गरीक्षा बोर्ड खनन परीक्षा बोर्ड Secretary Chairman Board of Mining Board of Mining Examinations Examinations Signed and Sealed Date 04.01.17

Certificate of Second class manager



Certificate of Foreman



Certificate of Blaster

Cert No. SMR-E 6375 unce artent/Government of India खान आधिनियम, 1952/Mines Act, 1952 खनन परीक्षा बोर्ड/Board of Mining Examinations द्वितीय क्षेणी प्रबंधका संख्याता प्रमाण-पत्र SECOND CLASS MANAGER'S CERTIFICATE OF COMPE (केवल ओपनकास्ट खानों तक सीपित) (Restricted to mines having opencast workings only) (धालिकीय खान विनिधय, 1961 को अलगॅन) (Under the Metalliferous Mines Regulations, 1961) अ नल्ली गीता कृष्ण मुख्य मल्ली बाला कृष्ण जिनको जन्म तिथि है, को विहित आईताएँ एवं अनुभव प्राप्त करने 17 07 1992 का सन्तोधकनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर एतदुझा केवल आंधनकास्ट धानिवकीय गानों के प्रयंधन हेतु हितीय सेणी प्रबंधक संख्याता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है । यह प्रमाण-पत्र दिनांतः 01.11-2017 से प्रभावी है । Shri Nalli Geetha Krishna son of Ivalle Bala Krishna born on 17 th fuir , 1992 having given satisfactory evidence of possessing the prescribed qualifications and experience is hereby granted SECOND CLASS MANAGER'S CERTIFICATE OF COMPETENCY to manage the metalliferous mines having openciest workings only. This certificate is effective from. 01-11-2017 राजन प्रतिशा चीर्च 1973 TERM WIT Secretary Chairman Board of Mining Board of Mining Examinations Examinations Signed and Sealed Date /6-09/2

Certificate of Mines manager

| CUSTOMER DETAILS Customer Details M/sTripthy Granites Pattambi, Pattambi, Palakkad District Palakkad District Survey No 274,275/1A3 Village Thirumittacode II Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | Page 1 of | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Customer Details Name & Address M/sTripthy Granites Pattambi, Pattambi, Palakkad District Palakkad District Survey No 274,275/1A3 Village Thirumittacode II Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 | | | | | | |
| Customer Details Name & Address M/sTripthy Granites Pattambi, Pattambi, Palakkad District Palakkad District Survey No 274,275/1A3 Village Thirumittacode II Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 | | | | | | |
| Customer Details Name & Address Pattambi, Palakkad District Palakkad District Palakkad District Survey No 274,275/1A3 Village Thirumittacode II Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 SAMPLE DETAILS Source of Sample Ambient Air Source of Sample Ambient Air Source of Monitoring South side boundary Sample Received On 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | | | | | | |
| Nume of Name | | | | | | |
| Survey No 274,275/1A3 Village Thirumittacode II Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 | | | | | | |
| Village Thirumittacode II Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | | | | | | |
| Location of Site Panchayath Thirumittacode Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 SAMPLE DETAILS Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 | | | | | | |
| Location of Site Taluk Pattambi District Palakkad State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 SAMPLE DETAILS Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 | | | | | | |
| State Kerala Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 SAMPLE DETAILS Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200512 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 Sample Received On 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | | | | | | |
| Customer Reference Test Request form dated 18.05.2020 SAMPLE DETAILS Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200513 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 Sample Received On 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | | | | | | |
| Note Request form dated 10:00:2020 SAMPLE DETAILS Source of Sample Ambient Air Sample Code 20200514 Location of Monitoring South side boundary Sampled By Laborator Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 Sample Received On 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | | | | | | |
| Source of SampleAmbient AirSample Code20200512Location of MonitoringSouth side boundarySampled ByLaboratorDate of Monitoring18.05.2020Test Started On20.05.202Sample Received On18.05.2020Test Completed On23.05.202 | | | | | | |
| Location of MonitoringSouth side boundarySampled ByLaboratorDate of Monitoring18.05.2020Test Started On20.05.202Sample Received On18.05.2020Test Completed On23.05.202 | | | | | | |
| Date of Monitoring 18.05.2020 Test Started On 20.05.202 Sample Received On 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | 518/S054 | | | | | |
| Sample Received On 18.05.2020 Test Completed On 23.05.202 | Laboratory 20.05.2020 | | | | | |
| | | | | | | |
| Samping Flocedure 15 5182 F | 23.05.2020 IS 5182 Part V & XIV | | | | | |
| | Fall V 06 Al | | | | | |
| | NAAQ | | | | | |
| SL NO TEST PARAMETER TEST METHOD UNIT RESULTS 01 Particulate matter (PM10) IS 5182 Part 23: 2006 RA 2017 µg/m³ 65.7 | STANDA | | | | | |
| рание иннестрание и нестрание 20102 гипе 2017 ине 2017 ине 05.7 | 100 | | | | | |
| | 60.0 | | | | | |
| 03 Sulphur dioxide (SO2) IS 5182 Part 2: 2001 RA 2017 μg/m³ <2.00 | 80.0 | | | | | |
| 04 Nitrogen dioxide (NO ₂) IS 5182 Part 6: 2006 RA 2017 μg/m³ <2.00 | 80.0 | | | | | |
| ***End of Report*** | | | | | | |
| For a Standards Environmental & Analytic | r and on beh tical Laborat | | | | | |
| (Junited B/ |) and | | | | | |
| | (Bourson to | | | | | |
| | XAD | | | | | |
| | . / | | | | | |
| | horized Sign | | | | | |
| Labo | horized Sign Laiju P. | | | | | |
| Labo | horized Sign | | | | | |

Ambient Air

| Test Report No:202005 | 518/R055 | Date: 23.05.2020 | Page 1 of | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 1051 105011 110.202000 | ,10,1000 | Butt. 20.00.2020 | Tage 1 01 | | | |
| | CUSTO | MER DETAILS M/sTripthy Granites | | | | |
| Customer Details | Name & Address | Pattambi, | | | | |
| Customer Details | Name & Address | Palakkad District | | | | |
| | Summer No. | | | | | |
| | Survey No | | 274,275/1A3 | | | |
| | Village Panchayath | Thirumittacode | Thirumittacode II | | | |
| Location of Site | Taluk | Pattambi | | | | |
| | District | Palakkad | | | | |
| | State | Kerala | | | | |
| Customer Reference | June | Provi al Societz Sciences - | 2020 | | | |
| Customer Reference | CAMI | Test Request Form dated 18.05.2 | 2020 | | | |
| Source of Sample | SAMI | PLE DETAILS Ambient Sound Level | | | | |
| Sample Code | | 20200518/S055 | | | | |
| Location of Monitoring | | West side Boundary | | | | |
| Date of Monitoring | | 18.05.2020 | | | | |
| Method | | IS 9989:1981 RA:2008 | | | | |
| DAYTIME | RESULT | NIGHTTIME | RESULT | | | |
| 06.00 Hrs | 36.9 | 23.00 Hrs | 34.1 | | | |
| 07.00 Hrs | 39.5 | 00.00 Hrs | 36.6 | | | |
| 08.00 Hrs | 43.7 | 01.00 Hrs | 37.3 | | | |
| 09.00 Hrs | 47.1 | 02.00 Hrs | 37.0 | | | |
| 10.00 Hrs 11.00 Hrs | 49.4 | 03.00 Hrs | 37.7 | | | |
| 12.00 Hrs | 52.4 | 04.00 Hrs 05.00 Hrs | 36.6 | | | |
| 13.00 Hrs | 49.0 | | | | | |
| 14.00 Hrs | 49.4 | RESULTS | | | | |
| 15.00 Hrs | 49.8 | | | | | |
| 16.00 Hrs | 50.9 | Noise Level (Leq) Daytime | 47.9 dB (A) | | | |
| 17.00 Hrs 18.00 Hrs | 51.3 | | | | | |
| 19.00 Hrs | 42.6 | | | | | |
| 20.00 Hrs | 38.8 | Noise Level (Level XV 1 v.) | | | | |
| 21.00 Hrs | 38.3 | Noise Level (Leq) Nighttime | 36.9 dB (A) | | | |
| 22.00 Hrs | 35.7 | | | | | |
| | A STREET, STRE | nd of Report*** Standard ^s Environmental 8 Udynume Udynume Laiju P. N. | For and on beh Analytical Labora | | | |

Result of ambient sound

| | Environmental | | onitoring <u>TEST</u> | | <u> </u> | | | | |
|----------|---|-----|--|--|----------------------------|-----------|----------|---|--|
| Test | Report No:20200518/R0 |)56 | | Date: | 23.05.20 | 020 | | Page 1 of 1 | |
| | | | CUSTOMER | | | | | | |
| | | | | | ipthy Gra | nites | | | |
| Custo | omer Details | N | ame & Address | Pattan | ad Distric | at | | | |
| | | 0 | NEW YORK | | | | | | |
| | | - | urvey No | | 75/1A3 nittacode | 11 | | | |
| | | | Village Panchayath | | nittacode | 11 | | | |
| Locat | tion of Site | - | Taluk | | nbi | | | | |
| | | | District | | kad | | | | |
| | | St | tate | Kerala | ι | | | | |
| Cust | omer Reference | | | | | m dated 1 | 8.05.202 | 0 | |
| Ser | pla Cada | | SAMPLE I | 1 | • | 10 | 10.07 | | |
| | ple Code ple Name | - | 0200518/S056 | - | le Received | | 18.05.2 | :020 | |
| - | ple Description | - | pen well | | ling Procee ling Locati | | | | |
| - | tification By Customer | | | - | le Conditio | | Good | | |
| | pled On | | | | | | | .05.2020 | |
| Sam | pled By | C | ustomer | Test C | ompleted | On | 23.05.2 | | |
| 01 | | | | | | | | 1 | |
| SL NO | TEST PARAMETER | | TEST METHOD | | UNITS | RES | ULT | ACCEPTABLE LIMI (IS 10500 – 2012) | |
| 01 | Colour | | IS 3025 Part 4:1983 RA 2 | 017 | Hazen | 1.0 | 00 | 5.00 (Max) | |
| 02 | Odour | | IS 3025 Part 5:1983 RA 2 | 017 | | Unobject | tionable | Unobjectionable | |
| 03 | Turbidity | | IS 3025 Part 10:1984 RA | 2017 | NTU | 0.1 | 10 | 1.00 (Max) | |
| 04 | pH | | IS 3025 Part 11:1983 RA | | | 6.9 | 92 | 6.50 - 8.50 | |
| 05 | Conductivity | | IS 3025 Part 14:1984 RA | | µS/cm | 10 | | | |
| 06 07 | Total Dissolved Solids | 1 | IS 3025 Part 16:1984 RA | | mg/L | 72 | | 500 (Max) | |
| 07 | Total Hardness (as CaCO ₃ Calcium (as Ca) | 3) | IS 3025 Part 21:2009 RA IS 3025 Part 40:1991 RA | | mg/L | 36 | | 200 (Max) | |
| 09 | Magnesium (as Mg) | - | IS 3025 Part 46:1991 RA IS 3025 Part 46:1994 RA | | mg/L | 8.8 | | 75.0 (Max) | |
| 10 | Chloride (as Cl) | | IS 3025 Part 40.1994 RA | | mg/L mg/L | 12 | | 30.0 (Max) | |
| 11 | Total Alkalinity (as CaCO3 | 5) | IS 3025 Part 23:1986 RA | | mg/L mg/L | 29 | | 250 (Max) 200 (Max) | |
| 12 | Iron (as Fe) | | IS 3025 Part 53:2003 RA | | mg/L | 0.1 | | 1.00 (Max) | |
| 13 | Sulphate (SO4) | | IS 3025 Part 24:1986 RA | 2014 | mg/L | <1. | | 200 (Max) | |
| 14 | Total Coliform Bacteria | | IS 15185 : 2016 | | | Absent/ | 100 ml | Absent/100 ml | |
| 15 | E coli | | IS 15185 : 2016 ***End o | | | Absent/ | 100 ml | Absent/100 ml | |
| | | | rd ^s Environmental & | Instanting of the second secon |) | | | For and on behalt Analytical Laborator Authorized Signate Laiju P. N Laboratory H | |

Result of drinking water



Newspaper Advertisement

| PPP. | I CONNECT PVT. LTD. SBT, MC ROAD, PERUMBAVOOR UMBAVOOR KL-683542 0700500 , 9020675675 | (See Se | TAXA ection 31 | BLE INV & Rule 46 of CO B127 CIN: US | | 47195 | | | follow | www.bi care@bi |) (a) bismigroup ismigroup.com ismigroup.com)20-700-500 |
|---|--|-------------------------------|-------------------|--|---|---|--|------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | R | IGIN | AL | | | | | | |
| PER -68: IN Ph: | RUPTHI GRANITES RUMBAVOOR OUSHADU JUNCTION 3542 9446718898, 9447181841 | -683542 IN | | QUSHADU : | UNCTION | | E | Ir Si D C | ale Order No elivery Date ounter No | : 11-Ju o: : : | 301465 n-2020 12:53 PBR1S2-5051 |
| 0 | TN : Description Of Goods | Place Of S | Qty | : Kerala Rate | Taxable | 1 | CGST | V | arehouse SGST | : Cess | PBR1S |
| | ABC14909# DIOS LED TV MAGNA 32 | 8528721 | | 6773.73 | Value 13547.46 | Rate 9.0 | Amount 1219.24 | | Amount 1219.24 | 1% | Total 16121.41 |
| | SN#VAL1G_ABC14909_04149,VAL1G_ABC1490 4150 | | (alma and the | Contraction of the second seco | | | | | | E | |
| | | | 2. | 6773.73 | 13547.46 | | 1219.24 | | 1219.24 | 135.47 | 16121.41 |
| cte | en Thousand One Hundred Twenty-On | e Only | | | | | | Ro | und Off | | 0.41 16,121.00 |
| | man :VISHNU RAJAN - EN10185 atch No : | | | . No | Exchange Ite | em | | | | | Ex. Qty |
| v./ | /Receipt Cash Card | | | ent Detai | | Vouch | er Ex | cch Va | lue | 1 | Balance |
| | 0.00 16,121.00 : | 0.00 | | : 0.00 | | 0 | | 0.00 | | | 0.00 |
| em rim ktei I di neq urro nak | And Conditions no will be airranged in 3 working days after deli nary warranty provided by the respective manu ended warranty as per the terms and condition: lisputes shall be subject to Ernakulam Jurisdict jue/DD infavour of Bismi Connect Pvt. Ltd. ent A/c 053208300000014 South Indian Bank ckara IFSC : SIBL0000532 ation : | facturers. 5. ion only. | | Remarks | Rate J 2.5 6.0 9.0 14.0 | Amount 0.0 0.0 1219.2 0.0 1219.2 | Rate Am 0 2.5 0 0 6.0 4 4 9.0 12 0 14.0 14 | 0.00 0.00 219.24 | IGST Rate Amou 5.0 12.0 18.0 28.0 | int Rate | Cess Amount 135.47 135.47 |
| oor | i Connect Pvt. Ltd. rate Office: Castle Viany n., Kalamassery, Kochi - 683104 | | | PBR1S0 | Connect Pvt. I 2-Sarath K Saje ised Signatory | | | 4 | | | SMİ |

| | REGD NO. 3/200 G REGISTRATION NO. P.R.C. Reg.No. 1 | AN CHARITABLE TRUST 3-SRO, PUTHENCRUZE CIT/CHN/TECH/80G - 56/2010-11 2/13 O.C.B. Reg.No.757 3HAVAN ASRAMAM |
|------------------|--|--|
| No. 13635 | Malayidamthuruth P Ph: 0484-2681 | 20. Ernakulam (Dt) 683 561 767, Mob: 9447379213 Date 22/9/202 |
| Received with tl | anks from Mr./Mrs./M/ | s Tripthi Granites |
| RupeesF | ion thousan | 1 00/4/- |
| | on/Building Fund/Spec | |
| in Cash/Kind | | |
| | nnl | For Prathyasa Bhavan Asramam |
| Rs. 50 | | For Prathyasa Bhavan Asramam Director 1 |

| PRATH | YASA BHAVA | N CHARITABLE TRUST |
|---------------|--|--|
| 80 | G REGISTRATION NO. | S-SRO, PUTHENCRUZE |
| NJ 3559 | PRATHYASA BI Malayidamthuruth P.C | 13 O.C.B. Reg.No.757 HAVAN ASRAMAM 9. Ernakulam (Dt) 683 561 67, Mob: 9447379213 Date |
| | hanks from Mr./Mrs./M/s. Li Granftes - Mre Housand | |
| towards Donat | ion/Building Fund/Specifi | ic |
| in Cash/Kind | Donation | |
| RS. SO | | For Prathyasa Bhavan Asramam Director P. P. (latghenkulty |

| शाखा/Branch: | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---|
| अवत चालू SB CD खाता संख्या/Acc | ount Number | िनांक/Da | te: 1/2/20 | |
| 100 | REGRE | 000000 | 519555 | |
| खातेवार का नामगु | | Mame (Mr./Ms. | here | |
| Cheq | ap billion | नकदी जमा Cash Deposit | Amount | |
| बैंक/शाखा Bank & Branch | संख्या Number | - 핏격/편 Denomination/ Pleces | A.S. | |
| | | 2000 x 444 500 x 827- | 18500 - | - |
| A | N-2 | 100 x 774 | 400 | - |
| 12000 120 | Charles. | 20 x 10 x 5 x | | - |
| Togetter Docal (II | n figures) | × | 18900 - | - |
| Rupees (in words | | m dha 1 | mol lal | 1 |

CSR/CER Receipts